

एमएसएमई-विकास संस्थान, राँची
हिन्दी दिवस/ हिन्दी कार्यशाला/ हिन्दी पखवाड़ा का प्रतिवेदन

एमएसएमई-विकास संस्थान, राँची द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2021 से 28 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन कोविड-1 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए किया गया। सर्वप्रथम दिनांक -14 सितम्बर, 2021 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा, सहायक निदेशक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यालय प्रभारी महोदय ने अपने भाषण में हिन्दी के महत्व एवं इसके व्यवहारिक प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों का वर्णन करते हुए उनका समाधान भी बताया ताकि इसका सरलता से प्रयोग किया जा सके। इस अवसर पर नामित राजभाषा अधिकारी श्रीमती नीतू, सहायक निदेशक ने अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), नई दिल्ली का हिन्दी दिवस संबंधित संदेश भी पढ़कर सुनाया। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत 'राजभाषा प्रतिज्ञा' भी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालय प्रभारी के साथ-साथ दुहराया गया। अपराह्न काल में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। हिन्दी पखवाड़ा के दौरान दिनांक-16.09.2021 को हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

दिनांक - 24 सितम्बर, 2021 को एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अतिथी वक्ता श्रीमती मृदुला प्रसाद, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, कोकर, रांची ने मानक हिन्दी से संबंधित प्रावधानों एवं नियमों के बारे में सभी प्रतिभागियों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के बहुधा प्रयोग में होने वाली वर्तनी संबंधित त्रुटियों पर बहुत ही उपयोगी जानकारी दी।

सहायक निदेशक सह नामित राजभाषा अधिकारी श्रीमती नीतू, सहायक निदेशक द्वारा पखवाड़ा के अंतिम दिन दिनांक-28.09.2021 को समापन समारोह में सफल प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की गई तथा कार्यालय प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा, सहायक निदेशक ने सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। प्रोत्साहन हेतु अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना उपहार भी भेंट की गई। विविध प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेता के नाम निम्नलिखित हैं -

हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता (दिनांक-14.09.2021)

- | | |
|---|------------------|
| 1. श्रीमती ज्योत्सना गुड़िया, सहायक निदेशक (सां.) | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री सुरेंद्र शर्मा, सहायक निदेशक (कां./मृ.) | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री संदीप सिंह, अन्वेषक (कां./मृ.) | तृतीय पुरस्कार |

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता (दिनांक-16.09.2021)

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. श्री रुपेश कुमार लाल, आशुलिपिक | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री डी. आर. लांग, प्र.श्रे. लिपिक | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री गौरव, सहायक निदेशक (वि.) | तृतीय पुरस्कार |

हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद प्रतियोगिता (दिनांक-16.09.2021)

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. श्री गौरव, सहायक निदेशक (वि.) | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री अभिषेक केरकेट्टा, हिंदी टंकक | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री रुपेश कुमार लाल, आशुलिपिक | तृतीय पुरस्कार |

सांत्वना पुरस्कार

- | | |
|--|-------------------|
| 1. श्री विद्यापति पात्र, सहायक निदेशक (कां./मृ.) | सांत्वना पुरस्कार |
|--|-------------------|

2. श्री लगन दास, प्रारूपक
3. श्री पिंटू कुमार शर्मा, आशुलिपिक

सांत्वना पुरस्कार
सांत्वना पुरस्कार

श्री प्रमोद कुमार, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने पखवाड़ा के दौरान सभी कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी पखवाड़ा के दौरान उत्साहपूर्ण भागीदारी एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

हिन्दी पखवाड़ा/ हिन्दी दिवस/ हिन्दी कार्यशाला के आयोजन से संबंधित कुछ छायाचित्र/झलकियां एमएसएमई-विकास संस्थान, राँची



हिन्दी पखवाड़ा बैनर



हिन्दी दिवस समारोह (राजभाषा प्रतिज्ञा लेते हुए)



हिन्दी पखवाड़ा की प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रतिभागी



हिन्दी कार्यशाला में आमंत्रित अतिथी वक्ता



विजेताओं को प्रमाण-पत्र का वितरण



सहायक निदेशक प्रभारी महोदय द्वारा कविता पाठ